

लेखांकन (224)
ACCOUNTANCY
शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र
TUTOR MARKED ASSIGNMENT

Maximum Marks: 20

अधिकतम अंक: 20

टिप्पणी/Note:

- i) सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
All questions are compulsory. The marks allotted for each question are given at the same place.
- ii) उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखिए।
Write your name, enrollment number, AI name and subject on the top of the first page of the answer sheet.

1. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40-60 शब्दों में दीजिए।

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 2

- a) 'लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है।' टिप्पणी कीजिए। (पाठ-1 देखें)

'Accounting is termed as the language of the business'. Comment.

(See Lesson 1)

- b) संयुक्त प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं? साथ ही, रोज़नामचे से खाता बही में संयुक्त प्रविष्टि दर्ज करने की प्रक्रिया को भी समझाइए।

(पाठ-10 देखें)

What do you understand by compound entry. Also, explain the process of posting a compound entry from the journal into the ledger. (See Lesson 10)

2. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40-60 शब्दों में दीजिए।

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 2

- a) विक्रय एवं क्रय दिवस बही के उपयोग को समझाइये। (पाठ-9 देखें)

Explain the usage of sales and purchase day book. (See Lesson 9)

- b) लेखांकन सरकार और शोधकर्ताओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है? (पाठ-1 देखें)

Explain how accounting is useful to government and researchers?

(See Lesson 1)

3. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40-60 शब्दों में दीजिए ।

Answer any one of the following questions in about 40-60 words.

2

- a) रोज़नामचे और खाता बही के बीच अंतर लिखिए। (पाठ-10 देखें)
Explain a difference between journal and ledger. (See Lesson 10)
- b) निम्नलिखित के लिए लेखांकन समीकरण के नियम लिखिए: (पाठ-4 देखें)
- i) बाहरी समता
 - ii) पूंजी पर ब्याज

Write down the rules for accounting equation for the following: (See Lesson 4)

- i) Outsider's Equity
- ii) Interest on Capital

4. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100-150 शब्दों में दीजिए ।

Answer any one of the following questions in about 100-150 words.

4

- a) प्रत्येक वर्ष के शुद्ध लाभ का पता लगाने के लिए, व्यवसायियों को न केवल वर्तमान आकस्मिकताओं बल्कि भविष्य की आकस्मिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस संदर्भ में, आपका मित्र गुप्त संचय का उद्देश्य जानना चाहता है। एक अच्छे मित्र के रूप में, उसे गुप्त संचय के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। (पाठ-13 देखें)

In order to ascertain the net profit for each year, businessmen need to take into account not only the current contingencies but future contingencies also. In this context, your friend wants to know the purpose of secret reserve. As a good friend, explain to him the purpose of secret reserve.

(See Lesson 13)

- b) एक लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में टैली का अर्थ स्पष्ट कीजिए। (पाठ-17 देखें)
Explain the meaning of Tally as an accounting software. (See Lesson 17)

5. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100-150 शब्दों में दीजिए ।

4

Answer any one of the following questions in about 100-150 words.

- a) निम्नलिखित के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए : (पाठ-4 देखें)
- i. 250000 रुपये नकद के साथ व्यवसाय शुरू किया।
 - ii. अंकित ने रवि से 70,000 रुपये का सामान खरीदा।
 - iii. ₹ 27,000 का माल उधार खरीदा।
 - iv. ₹ 20,000 की लागत का माल ₹ 42,000 में लागत बेचा।
- Prepare Accounting Equation on the basis of the following: (See Lesson 4)
- i. Commenced business with cash Rs.250000.
 - ii. Ankit purchased goods from Ravi Rs. 70,000.

- iii. Purchased goods on credit Rs.27,000.
 - iv. Neha sold goods costing Rs.20,000 for Rs.42,000 for cash.
- b) **उल्लेख कीजिए कि कैसे एक व्यापारी द्वारा चेक जारी करने पर भी उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत न करने पर रोकड़ बही और पास बुक के शेष में अंतर आ जाता है।** (पाठ-8 देखें)
- Explain how the issuance of cheques by a trader but not yet presented for payment leads to a difference between the cash book and pass book balances. (See Lesson 8)

6. निम्नलिखित में से किसी एक पर परियोजना तैयार कीजिए ।

Prepare any one Project out of the given below.

6

दीपक ट्रेडर्स के निम्नलिखित विवरणों से 30 जून, 2024 को बैंक समाधान विवरण तैयार करें।

- i. रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 1,50,000 रु.
- ii. 27,550 रु. के चेक बैंक में जमा किए, लेकिन बैंक द्वारा अभी तक वसूल नहीं किए गए हैं।
- iii. क्रेडिट कार्ड शुल्क के लिए 8250 रु. बैंक द्वारा डेबिट किए गए हैं, जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए ।
- iv. पासबुक में 60,000 रु. का डेबिट था जिससे रियायती बिल की अस्वीकृत हो गया।

(पाठ-8 देखें)

From the following particulars of Deepak Traders, prepare a bank reconciliation statement on June 30, 2012.

- i. Balance as per the cash book Rs. 1,50,000
- ii. Cheques for Rs.27,550 are deposited in the bank but not yet collected by the Bank.
- iii. Rs. 8250 charges for Credit Card fee is debited by bank, which is not recorded in cash book.
- iv. There was also a debit in the pass book of Rs. 60,000 in respect of a discounted bill dishonoured.

(See Lesson 8)

- b) किसी भी नजदीकी दुकान पर जाएं और उनके दस व्यापारिक लेन-देनों का अवलोकन करें तथा उनके लिए लेखांकन समीकरण तैयार करें तथा सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक चरण में बराबर हों।

(पाठ-4 देखें)

Visit any nearby shop and observe their ten business transactions and prepare the accounting equation for them and ensure that they are equal at each and every step.

(See Lesson 4)